



द बिशप्स को. एड. स्कूल, उंड्री
(अंतर सदनीय हिंदी काव्यवाचन प्रतियोगिता)

“राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है” - महात्मा गाँधी

“निज भाषा का नहीं गर्व जिसे
क्या प्रेम देश से होगा उसे ,
वही वीर देश का प्यारा है ,
हिंदी ही जिसका नारा है।”

हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा की गौरवशाली परंपरा को जन - जन तक पहुँचाने के लिए हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत ‘द बिशप को. एड. स्कूल , उंड्री’ द्वारा कक्षा पहली से पाँचवी तक के विद्यार्थियों के लिए अंतर सदनीय हिंदी काव्यवाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता और भाव -अभिव्यक्ति को दर्शाने का सुअवसर मिला। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को हिंदी लिखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उनकी कलात्मक एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति को एक नया आयाम मिले।

कक्षा पहली और दूसरी की प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रार्थना द्वारा हमारी माननीय समन्वयिका श्रीमती एम.पिल्लई ने किया। इस प्रतियोगिता के निर्णायकगण श्रीमती प्रियंका शुक्ला, श्रीमती वैशाली पाखले और श्रीमती मधुरा शेख बनीं।

कक्षा तीसरी से पाँचवी की कविता वाचन प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रार्थना से हमारे समन्वयक श्रीमान फ्रांसिस जी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायकगण श्रीमती वंदना कुमार, श्रीमती स्मिता शालिनी जायसवाल एवं श्रीमती संगीता पांडे जी बनीं।

कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक की काव्यवाचन प्रतियोगिता का आयोजन 19 सितंबर, 2022 तथा कक्षा पहली से दूसरी तक का आयोजन 20 सितंबर, 2022 को किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने हास्य- व्यंग्य जैसे **चटोरी चींटी, कान की आत्मकथा, दे मारा जैसी कविताओं** के साथ-साथ सामाजिक विषयों जैसे **कबाड़ से कमाल, स्त्री और कीमत बड़ी चुकाई है** जैसे विषयों का चयन कर काव्य धारा प्रभाव में अनेक रस भर दिए। कार्यक्रम का अहम हिस्सा विद्यार्थियों द्वारा ही संचालित किया गया जिससे उनके वाक कौशल का सृजन हो।

कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए समय-समय पर अध्यापिकाओं द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे टंग - ट्विस्टर, अंको का खेल आदि का आयोजन भी किया गया। निर्णायकगणों ने स्वरचित कविताओं द्वारा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक बढ़-चढ़कर इस काव्य वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के अंत में हमारी पर्यवेक्षिका श्रीमती फर्नांडिस जी द्वारा सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए परिणाम की घोषणा की गई।

अंत में प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय सभी गणमान्य निर्णायकगण, शिक्षकगण, अभिभावकों एवं प्रतिभागियों को कक्षा दूसरी से सिद्दिका शेख ने एवम् कक्षा चौथी से संस्कार कुमार ने धन्यवाद अर्पित किया ।

प्रतियोगिता का परिणाम निम्नवत् रहा-

☞ कक्षा पहली और दूसरी की प्रतियोगिता का परिणाम

विजयी वक्ता

कक्षा	विजेता का नाम	सदन
पहली	दिशीका सुगनानी	रे
दूसरी	सय्यद अब्दुल खतीब	विंटल

सदनीय परिणाम

सदन	स्थान
विंटल	प्रथम
रे	द्वितीय
यंग तथा ओ' कानर	तृतीय

☞ कक्षा तीसरी से पाँचवी की प्रतियोगिता का परिणाम-

विजयी वक्ता

कक्षा	विजेता का नाम	सदन
तीसरी	फातिमा शेख	रे
चौथी	मनन सुगनानी, अरहम ओसवाल	यंग विंटल
पाँचवी	दीया मेवेकरी	यंग

सदनीय परिणाम

सदन	स्थान
यंग	प्रथम
विंटल	द्वितीय
ओ' कानर	तृतीय
रे	चतुर्थ

कक्षा पहली और दूसरी की प्रतियोगिता के विजेता



निर्णायकगण



कक्षा तीसरी से पाँचवी की प्रतियोगिता के विजेता



निर्णायकगण





सपना नंदा